

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य –दिनांक 30.05.2022

थाना कांट पुलिस को मिली बड़ी सफलता,

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड, 07 अवैध असलहा मय 05 कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले, टाप-10, क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम अभियान एवं प्रचलित अभियान “आपरेशन पाताल” के अन्तर्गत श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री अखण्ड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व मे थाना कांट पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

थाना कांट की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.05.2022 मुखबिर की सूचना पर ग्राम इमलिया से रत्नापुर जाने वाले मार्ग पर झाड़ी तलाब के पास से अभियुक्त गण 1. धर्मपाल उर्फ कल्लू पुत्र मकरंद निवासी ताहरपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष 2. अवधेश पुत्र जगदेव निवासी ग्राम बसबेरिया थाना मझिला जनपद हरदोई उम्र करीब 40 वर्ष को शस्त्र बनाते हुए बने , अर्ध बने व मरम्मत वाले शस्त्र सहित 1 अदद पोनिया 12 बोर व 2 अदद तमंचा 12 बोर निर्मित तथा 01 अदद तमंचा 315 बोर अर्धनिर्मित व 1 अदद पोनिया 315 बोर व 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद तमंचा 315 बोर मरम्मत वाले व 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. धर्मपाल उर्फ कल्लू पुत्र मकरंद निवासी ताहरपुर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष ।
2. अवधेश पुत्र जगदेव निवासी ग्राम बसबेरिया थाना मझिला जनपद हरदोई उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद पोनिया 12 बोर (निर्मित)
2. 02 अदद तमंचा 12 बोर (निर्मित)
3. 01 अदद तमंचा 315 बोर अर्धनिर्मित
4. 01 अदद पोनिया 315 बोर (मरम्मत हेतु)
5. 01 अदद तमंचा 12 बोर (मरम्मत हेतु)
6. 01 अदद तमंचा 315 बोर मरम्मत वाले
7. 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
8. 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
9. शस्त्र बनाने के उपकरण

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त धर्मपाल उर्फ कल्लू व अवधेश पतुर जगदेव उपरोक्त द्वारा बताया गया कि धर्मपाल उर्फ कल्लू अवैध शस्त्र का मिस्री है , पुलिस के चोरी छिपे अवैध शस्त्रों का निर्माण का कार्य करता है , पुराने शस्त्रों की मरम्मत भी करता है। जिसने विगत काफी समय से बीच में काम छोड़ दिया था फिर अभी कुछ दिन से शुरु किया है। एक बार में 3-4 शस्त्रों का निर्माण करते है एक तमंचे की कीमत 3000 रुपये से 4000 रुपये में बिक्री करते है। अवैध शस्त्रों के निर्माण में ये पहले भी जेल जा चुके है। अभियुक्त गण से अवैध शस्त्रों की खरीद करने वालों की जानकारी की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0स0-274/2022 धारा - 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मपाल उर्फ कल्लू पुत्र मकरन्द व अवधेश पुत्र जगदेव ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास – धर्मपाल उर्फ कल्लू

1. मु0अ0स0-358/2007 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कांट
2. मु0अ0सं0 359/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कांट
3. मु0अ0सं0 128/2009 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कांट
4. मु0अ0सं0 1601/2016 धारा 452/323 भादवि थाना कांट
5. मु0अ0स0-132/2019 धारा – 364A/120B IPC थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर
6. मु0अ0स0-136/2019 धारा – 307/34 IPC थाना माधोगंज हरदोई
7. मु0अ0सं0 137/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना माधोगंज हरदोई
8. मु0अ0सं0 739/2021 धारा 60 आर्म्स एक्ट थाना कांट

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास – अवधेश पुत्र जगदेव

1. मु0अ0स0-132/2019 धारा – 364A/120B IPC थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0-136/2019 धारा – 307/34 IPC थाना माधोगंज हरदोई
3. मु0अ0सं0 738/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कांट

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्यागी थाना कांट जिला शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 विपिन कुमार शुक्ला थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 हरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 143 विजय कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. हे0का0 302 शहनवाज आलम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1716 शुभम सिंह थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 2185 रामेन्द्र तोमर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 2089 मोहित पवार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 2030 सद्दाम हुसैन थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 2492 अजय शर्मा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर